

December 31, 2018

Asst. Vice President, Listing Deptt.
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, Plot C/1, G Block
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E),
MUMBAI - 400 051
Scrip Code: HEROMOTOCO

The Secretary,
BSE Limited
25th Floor,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
MUMBAI - 400 001
Scrip Code: 500182

Re: Disclosure under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Sub: Submission of newspaper advertisement

Dear Sirs,

Please find enclosed herewith a copy of the newspaper advertisement published regarding the requests for issue of duplicate share certificates in lieu of original share certificates that are reported to be lost and not traceable.

This is submitted for your information and records.

Thanking you,

For Hero MotoCorp Ltd.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Neerja Sharma', with a horizontal line underneath.

(Neerja Sharma)
Company Secretary

Encl.: As above

Hero MotoCorp Ltd.

Regd. Office: 34, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057, India
Tel. +91-11-26142451, 46044100, Fax +91-11-26143321, 26143198
HeroMotoCorp.com CIN: L35911DL1984PLC017354 PAN: AAACH0812J

FINANCIAL EXPRESS

COMPANIES 5

list in Nov

HERO MOTOCORP MAINTAINED its leadership position in the domestic two-wheeler segment in November, with four of its models making it to the top ten selling list.

Two models each from Honda Motorcycle and Scooter India (HMSI), Bajaj Auto and TVS Motor Company also featured among the top selling two-wheelers last month.


According to data compiled by the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), Hero MotoCorp's Splendor was the best selling model last month. It sold 2,25,536 units in November as against 2,25,737 units a year ago.

Rival HMSI's popular scooter Activa stood at the second position with sales of 2,18,212 units. It had secured first position in November 2017 with sales of 2,26,046 units. Hero MotoCorp's HF Deluxe stood at the third spot with sale of 1,68,839 units.

TVS Motor's XL Super moped secured the fourth position with sale of 74,590 units. It was at the sixth position in November 2017 with sales of 69,888 units. — PTI

for procurem- suitable LMS, Bank's websit
 Place: Navli Mur
 Date: 31.12.20

Head C 3 & 4.
 UCO Bank invites 1. RFP for Supply, Cards & National Card, 2. RFP for Selection of Indian Accounts
 For any details, please call
 Date: 31.12.2018



POWERGRID invite bids for
<https://bids.pts.com>
 Construction of Auxiliary Building at Maresar, Estimated Cost: INR 100 Crores
 Tender Enquiry No.: EMD: INR 3,52,000/-

1. For further details procurement portal
2. Bidder may peruse only after paying favour of "Power ONLINE Payment"
3. Bid Security, Integrity shall be submitted deadline of bid and bid submission.
4. The complete details are available at <https://www.powergrid.co.in>

*Give a missed

Hero MotoCorp Limited
 Head Office: 34, Community Centre, Essart Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110037
 CIN: L29110 DL1999PLC017361, Phone: 011-46641026, Fax: 011-26143321
 E-mail: secretarial@heromotocorp.com, Website: www.heromotocorp.com

Public Notice for Issue of Duplicate Share Certificates
 Members of the general public and existing shareholders of Hero MotoCorp Ltd. (Company) are hereby informed that the original Share Certificates, details of which are given (hereunder) have been reported lost/replaced/stolen/not received and that pursuant to requests received from concerned shareholders, the Company intends to issue duplicate Share Certificates in lieu of the said original Shares Certificates in their favour:

Sr. No.	Folio No.	Shareholder's Name	Distinctive No. From	To	Certificate No. (s)	No. of Shares
Shares of Face Value of Rs. 10/- each						
1	HML0088964	Manisha Mahendra Karani Trupti Kishor Karani	12649517	12649521	147951	5
2	HML0081939	Kurian Jacob	21013541 21013591	21013590 21013520	344903 344904	50 31
3	HML0111978	Digvijay Kapuria	16285215 16285265 16285275 21157866 21157916	16285294 16285274 16285276 248494 248496	248494 248495 248496	50 5 10 50 25
4	HML0068107	Maniben Bhalalabhai Patel Bhalalabhai Bhalalabhai Patel Kaushtikbhai Bhalalabhai Patel	12429233 12429252		138973	20
Shares of Face Value of Rs. 2/- each						
5	HML0034825	V Sambandan	44445571 44445580		598389	250
6	HML0111978	Digvijay Kapuria	186014191 186014690	47852611 47853110	514264 525738	50 700

Any person having objections to the issue of duplicate Share Certificates, as mentioned herein above, may submit the same, in writing, with the Company marked to the 'Secretarial Department' at its Registered Office within 15 days from the date of publication of this Notice. In the meanwhile, members of the public are hereby cautioned against dealing in the above mentioned Share Certificates.

Place: New Delhi Date: 29.12.2018
 For Hero MotoCorp Ltd. **Sd/- Neeraj Sharma Company Secretary**

UNFILED PUBLIC STATEMENT FOR ATTENTION TO THE SHAREHOLDERS OF GO GLOBAL LIMITED
 ("VGL"/"TARGET COMPANY"/"TC")
 with Mazon, H No. 7-1-62/48, S R Nagar, Hyderabad, Telangana-500 038.
 Phone No. +91-40-2788 7640 / 2381 4181

A public statement is being issued by Navigant Corporate Advisors Limited, on behalf of Limited (Acquirer) in compliance with the Securities and Exchange Board of India (Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations") and SEBI/HQ/CFD-DCR-2/OW/35029/2018 dated 21st December, 2018 in respect of Open Offer to 27.31, 118 Equity Shares of Rs. 4/- each representing 26.00% of the total Equity of Target Company. The Detailed Public Statement ("DPS") pursuant to the Public Statement Acquirer have appeared in Financial Express (English Daily) all editions, Jansatta Nagar (Marathi Daily), Mumbai Edition and Nav Telengana (Telugu Daily), Hyderabad.

TARGET COMPANY ARE REQUESTED TO KINDLY NOTE THAT THE FOLLOWING

Activities: The original and revised schedule of activities is set forth as below:

	Original Date	Original Day	Revised Date	Revised Day
22.10.2018	Monday	22.10.2018	Monday	
29.10.2018	Monday	29.10.2018	Monday	
29.10.2018	Monday	29.10.2018	Monday	
05.11.2018	Monday	05.11.2018	Monday	
22.11.2018	Thursday	22.11.2018	Thursday	
30.11.2018	Friday	24.12.2018	Monday	
04.12.2018	Tuesday	26.12.2018	Wednesday	
11.12.2018	Tuesday	02.01.2019	Wednesday	
12.12.2018	Wednesday	03.01.2019	Thursday	
13.12.2018	Thursday	04.01.2019	Friday	
17.12.2018	Monday	08.01.2019	Tuesday	
16.12.2018	Tuesday	09.01.2019	Wednesday	
01.01.2019	Tuesday	22.01.2019	Tuesday	
15.01.2019	Tuesday	05.02.2019	Tuesday	
22.01.2019	Tuesday	12.02.2019	Tuesday	

1360 sqft)	12.60 crore
Building A, Kapila Enclave Cooperative Society, Swami Nityanand Marg, Antheri East, 009 (Area 7338 sqft)	
Plot No. 553, Bhany Vinayak Promises Housing Society, 18th Road, Khar West, 900 sqft)	2.81 crore
iron, other metals, machine scrap, plastic inventory scrap, furniture future, office used in automotive industry at 10B, Dada Nagar, Kangur, UP	14.70 lakhs
Other metal, machine scrap, plastic, inventory scrap, furniture future, office used in automotive industry at 72A, Dada Nagar, Kangur, UP	6.00 lakhs
Other metal, machine scrap etc. automotive industry at C-39, Site-I, Pankaj, Kangur, UP and S-29, Site-II, Pankaj, Kangur, UP	40.00 lakhs
Items consisting of Movable Furniture, TVs, Televisions, Fitness Equipments, etc. (as per lot) at C-10, Site-II, Pankaj, Kangur, UP	3.40 lakhs
Finished/semi Finished (250 No.) (as per lot-II), Pankaj Industrial Area, Kangur, UP	67.00 lakhs
Two Wheeler Engines, Cylinder etc. (as per lot) at C-10, Industrial Area, Kangur, UP	58.00 lakhs
For other details of properties are uploaded at the website	

check out and submit a bid for the same.
 Agency (Auction Tiger): Mr. Kunal Kohli Email id - tiger@tsp. Ind. Mob. No.: +91 6351896834 / 896899773.
 CA. Anil Shah, Email id - ind_auction@gmail.com Ph 9224476

2018-17/10095
 201301, UP, India Date: 31.12.2018
 Place: New Delhi

MOTIVE LIMITED
 QJWB1981PLC033996
 Park Street, Kolkata- 700 016
 MO: +91 93322 22818
 Website: www.jautomotive.co.in

POSTAL BALLOT

110 of the Companies Act, 2013 read with the SEBI (Delisting of Securities) Regulations, 2014, as amended, the approval means of Postal Ballot (including e-voting) for the delisting of the Company from The Calcutta Stock Exchange where the equity shares of the Company are listed and the approval of the SEBI (Delisting of Securities) Regulations, 2014, as amended (hereinafter called the "Delisting Regulations") dated 15.11.2018 read with the SEBI (Delisting of Securities) Regulations, 2014, as amended. The Company has announced the results of the Report dated 28.12.2018 submitted by Mr. S. Anand (Sharma), Practising Advocate, Membership since with the provisions of the Companies Act, 2013. The results of the Postal Ballot as follows were received in given below:

Electronic voting	Total No. of Valid Votes	% of votes polled on outstanding shares
0	9,01,200	81.93
0	0	0.00
0	9,01,200	81.93

Special resolution for Delisting of Securities from Calcutta Stock Exchange Limited

As Shareholders					
As per	% of votes polled on outstanding shares	No of votes in favour	No of votes against	% of votes in favour on votes polled	% of votes against on votes polled
00	100.00	685200	0	100.00	0.00
00	0.00	0	0	0.00	0.00
00	100.00	685200	0	100.00	0.00
00	0.00	0	0	0.00	0.00
00	0.00	0	0	0.00	0.00
00	52.07	218006	0	100.00	0.00
00	0	0	0	0.00	0.00
00	52.07	218006	0	100.00	0.00
00	81.93	991200	0	100.00	0.00

and "Promoter Shareholders" have the same the Delisting Regulations. Public Shareholders in favour of the proposed

ADDENDUM TO THE LETTER OF INTENT OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF
IDBI BANK LIMITED
 Registered Office: IDBI Tower, Mumbai, Maharashtra
 CIN: L65190MH2004GQ0148838; Tel. No. 022-26120000

This Addendum to the Letter of Offer dated 14.12.2018 of ICI Securities Limited, the Manager to the Offer, in respect of the Insurance Corporation of India ("Acquirer") in respect of IDBI Bank Limited ("Target Company").

Addendum to the LOF:

Post the dispatch of the LOF, the Acquirer, in compliance with SEBI (SAST) Regulations, during the offer period, Equity Shares at a price of ₹ 60.73 per share (inclusive of ₹ 14,500 crore forming part of the Preferential Issue through Postal Ballot on November 7, 2018, by the Company. Such Equity Shares shall be kept in a demat account in accordance with Regulation 22 (2A) of SEBI (SAST) Regulations, 2011, as amended. Further, in accordance with Regulation 22 (2A) of SEBI (SAST) Regulations, 2011, as amended, the Acquirer confirms that it shall not exercise any voting rights in respect of the Equity Shares held in the demat account, until the expiry of the Offer Period. Accordingly, the Acquirer shall not exercise any voting rights in respect of the Equity Shares that may be tendered by the Equity Shareholders of the Target Company, until the expiry of the Offer Period. In order to ensure that the Acquirer holds the Equity Shares in a demat account in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (SAST) Regulations, 2011, as amended, the Acquirer shall ensure that the Capital upon completion of the Offer and the Preferential Issue through Postal Ballot is held in a demat account. The LOF and other related material issued in this behalf shall have the same effect as if they were capitalised terms not defined herein shall have the same effect.

Declaration by the Acquirer

The Acquirer and their respective directors severally and jointly have read and approved the information contained in this Addendum and also the SEBI (SAST) Regulations and subsequent amendments for ensuring compliance with the concerned SEBI (SAST) Regulations and the provisions of the Companies Act, 2013 and to sign this Addendum. A copy of this Addendum will be made available to the Target Company.

ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER:

ICI SECURITIES
 ICI Centre, H.T. Road, Vikram Nagar, Huda Industrial Area, Gurgaon, Haryana
 Tel: +91 22 2288 2288
 E-mail: idbi_opendoc@ici.co.in

MANAGER TO THE OFFER:

व्यापार - नई दिल्ली 31.12.2018

Final report from Merchant Banker 22.01.2019 Tuesday 12.02.2019 tuesday

All other terms and conditions remain unchanged. Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and LOF.

ISSUED BY THE MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER:

MANAGER TO THE OFFER:



NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED

423, A Wing, Bonanza, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400059; Tel No.: +91 22 4120 4837 / 4973 5078

Place: Mumbai Date: 29.12.2018

हार्मोटोकोर्पोरेशन लिमिटेड

बुल्डोझर प्रोपर्टी प्रमॉटर और डेवलपर के लिए सार्वजनिक सूचना

Table with 5 columns: क्र. सं., कोटिंग नं., शोधकर्ताओं का नाम, दस्तावेज़ नं. से लेकर, प्रस्तावित कीमत, शेयरों की संख्या

किसी भी व्यक्ति को अगर कंपनी द्वारा बुल्डोझर प्रोपर्टी प्रमॉटर जारी करने से आवंटित है तो इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर लिखित में कंपनी 'संशोधित दस्तावेज़' को प्रस्तुत करते हुए कंपनी के परीक्षक कार्यालय पर उन्हें इस सूचना, अन्वय के सन्दर्भों को ऊपर उल्लेख करके प्रमाण पत्रों में विवेका करने के विवरण आगाह किया जात है।

स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 29.12.2018

सार्वजनिक सूचना के लिए अधिकृत नई दिल्ली घाट के समक्ष

सार्वजनिक सूचना की सूचना

IDBI BANK एनबीए मैनजमेंट ग्रुप, ई-1, प्रथम तल, वीडियोकोन टॉवर, संजैवालान एक्स, नई दिल्ली- 110055 फोन: 011-66083103, 66083136, मो. 9007854889

बिक्री के लिए नीलामी सूचना दिल्ली में आवासीय संपत्ति बिक्री के लिए- कृपा राजगोपी राम, चांदनी चौक श्री संजय कुमार पुत्र श्री राम प्रकाश मैसर्स संजय फ़ैसली स्टोर की अचल संपत्ति की बिक्री

- 1. संपत्ति का विवरण: संपत्ति संख्या 293, रिटायर तन का भाग, कृपा संजोमी राम, नया बांस, दिल्ली- 110008 माप क्षेत्र 62.72 वर्ग मीटर... 2. आर्द्रता सूचकांक... 3. आरंभित मूल्य... 4. बिक्री दस्तावेज में वर्णित नियम व शर्तों की सूची

कार्यवाही/ गारंटी/ कानूनी बरिसेस को एल्टरनेट अधिसूचित किया जाता है कि चरित्रपूर्ण संपत्ति अचल आवासीय तथा कृपा संजोमी राम टॉवर, नीलामी से पहले चुका कर दें, जिसमें अक्षरक रूप में सत्यापित नीलाम कर दी जाएगी/ बिक्री की जाएगी तथा बकाया, यदि कोई होगा, ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।